

Ref: VGL/CS/2022/126

National Stock Exchange of India Limited (NSE) Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai – 400 051 Symbol: VAIBHAVGBL

### Date: 29<sup>th</sup> October, 2022

BSE Limited Phiroze JeejeeBhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 532156

### Subject: Newspaper Publication - Financial Results

Dear Sir/Madam,

With respect to captioned subject, please find enclosed copy of newspaper publication, published in Financial Express (English edition) and Business Remedies (Hindi edition) on 29<sup>th</sup> October, 2022

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Truly,

For Vaibhav Global Limited

Sushil Sharma Company Secretary

E-69, EPIP, Sitapura, Jaipur-302022, Rajasthan, India • Phone: 91-141-2770648, Fax: 91-141-2770510

SATURDAY, OCTOBER 29, 2022 13 FINANCIAL EXPRESS WWW.FINANCIALEXPRESS.COM s Limited (RISL) "IMPORTANT" Rajasthan State Mines & Minerals Limited Whilst care is taken prior to i/2023-21/267 Notice Inviting Expression of Interest (EOI) acceptance of advertising Cest/EMD Rs. 1.10 Cr. / Rs. 2.30 Lacs Lest dat 31:10.202 14.11.202 copy, it is not possible to verify Corrig #: EOI No.-RSMM/CO/PROJ/2022-23/215 ndum-1 its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be ne of editors is estanded as: ne of submission 14.11.2022 as to 3.00 pm gol office: 14.11.2022 as to 3.00 pm ms & conditions of the EOX shall rem rem cam or http://anew.opp.rajecthan ms http://anew.opp.rajecthan so information goalerttp://risl.rajas an.gov. held responsible for such vie fich are to be contents, nor for any loss or mical Director (Civil & Electric Group General Manager (Proj damage incurred as a result of I IIFL ASSET MANAGEMENT LIMITED transactions with companies, IPL ASSET MANAGEMENT LIMITED Regd. Office: IFL Centre, 6th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 CIN: U74900MH2010PLC201113 www.iiflmf.com CO. LIMITED associations or individuals advertising in its newspapers king) any) or Publications. We therefore recommend that readers NOTICE IS HERRBY GIVEN GIVEN to all unitholder(s) of IIFL Mutual Fund that in accordance with Regulation 59 of SEBIL (Mutual Funds) Regulations, 1996, Un-Audited Flumatial Results of respective schemes of IIFL Mutual Fund, for the Juli year ended September 30, 2022 have been bested on the website of IIFL Mutual Fund, i.e., www.ilflmf.com. 030798 ta - 700 043 make necessary inquiries before sending any monies or of India Undertaking applications from entering into any agreements with advertisers or otherwise For IIFL Asset Mana e post of Engineer sent fimite Place: Mumbai Date: October 28, 2022 Authorised Sig acting on an advertisement in on and experience Company's website "MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY" any manner whatsoever. k time of receipt of 4.00 P.M. (V) Vaibhav Global Limited Regd. Off. : K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur-302004; Tel:-91-141-2601020; Fax: 91-141-2605077; CIN : L36911RJ1989PLC004945; -Mail: investor\_relations@valbhavglobal.com; Website : www.valbhavglobal.com ated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30° September, 2022 (fin lack, unlex observice stand) sl Manager (HR, A, S) E-Mail: investor relation Extract of Con AL OWNERS

competion of the Buyback August 29, 2022 ("Public o the Public Announcement s defined licenses

.

Comp

d

s of €10/- (Rupees ten only) 2022, from the Shareholders 2022, from the Shannholders or/ionate basis, through the p to #150 errore (Rupees one esi not include any expenses, thing and dispatch expenses, etc. and other include any up Equity Share capital and 122 (being the latest audited proposal of Buyback), m for acmulation of shares) m for acquisition of shares 5 dated April 13, 2015 mac incuder SERUHD CED CEU

#### Equity Share

te crore five lakh ninety five

hares	% Response
5	330.72%
5	190.94%
H.	211.90%

The Clearing Corporation has y Eligible Shareholders were the amounts payable to the

ed Equity Shares have been 2. No Equity Shares held in

mber 3, 2022.

Amount (in (Crore) Ē 75.00 uity 53.07 are as und

ares accepted as a % of Buyback Equity Shares (%) 2.63 0.64 0.64 0.59

> 0.11 ack, is as under back % holding post Buyback\*

73.08 26.92

100.00

1

13

16

Place : Jaipur Date : 27 October 2022

Mumbai - 400 013

0.00

in contained in thi id does not contai of the Board of Di Heal Technologies

Agarwal ce Offici No. A40751

		Consolidated			
S.		Quarter Ended		Year to date ended	
lo.		30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	
1	Total Income from Operations (Net)	64,625.72	63,478.54	127,452.84	
2	Other Income	220.43	592.20	405.06	
3	Total Income	64,846.15	64,070.74	127,857.90	
4	Net Profit from Ordinary Activities (before tax and exceptional items)	3,116.59	5,829.82	5,616.58	
5	Net Profit from Ordinary Activities before tax (after exceptional items)	3,116.59	5,829.82	5,616.58	
6	Net Profit from Ordinary Activities after tax (after exceptional items)	2,303.75	4,213.02	4,261.80	
7	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the		30	205	
	period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,171.91	3,450.37	5,482.45	
8	Equity Share Capital	3,290.81	3,267.85	3,290.81	
9	Earnings Per Share (of ₹ 2 each) (for continuing and discontinued operations)		301-009201	02-02-02000	
	i) Basic EPS	1.40	2.57	2.59	
	ii) Diluted FPS	1.37	2.51	2.55	

Sd/

 Notes:
 Image: Consolidated financial results for the quarter ended 30 September 2022 and year-to-date for the period from 01 April 2022 to 30 September 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Soard of Directoria at their respective meetings held on 27 October 2022. The financial results for the quarter ended 30 September 2022 and year-to-date for the period from 01 April 2022 to 30 September 2022 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

 2
 These unautified consolidated financial results have been prepared in accordance with indian Accounting Standards (1nd AS) prescribed under Section 133 of the Company.
 These unautified consolidated financial results have been prepared in accordance with indian Accounting Standards (1nd AS) prescribed under Section 133 of the Company. Network applications 2015.

 30 Urrent tax includes minimum attranta tax (MAT), wherever applicable, and deferred tax includes MAT credit entitlement.
 Key numbers of standalone financial results of the Parent Company. I.e., Valibhav Global Limited are as under:

Particulars	Quarter Ended		Year to date ended	
	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	
Total Income Profit before tax Total Comprehensive Income	12,926.10 3,772.27 3,723.00	16,235.99 4,825.66 4,450.58	24,057.24 4,557.07 4,277.47	

cial results include the financial results of liaries (collectively referred as 'the Group'): idiaries and step-down s A. VGL Retail Ventures Limited, Mauritius

a Shop TJC1 imited UK

- a. Shop LG Limited, UK I. Shop LG Global Inc., USA B. STS Global Supply Limited, Hong Kong (formerly STS Gems Limited) a. Pt. STS Bali, Indonesia
- b. STS (Guangzhou) Trading Limited, China
- C. STS Jewels Inc. USA
- C. STS Global Limited, Thailand (formerly STS Gems Thai Limited) E. STS Global Limited, Japan (formerly STS Gems Limited) F. Valbhav Vistar Limited, India
- G. Vaibhay Lifestyle Limited, India
- H. Shop LC GMBH, Germany

n, and per common, seminary E. Encase Packaging Private Limited, India (acquired on 15 March 2022) The shareholders of the Parent Company through postal ballor resolution dated 24 April 2021 approved the subdivision of one equi-share of the Parent Company from face value of ₹ 10<sup>4</sup> each into five equity shares of ₹ 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> each. The record date for sub-division 10 May 2021. All shares and per share information in the financial results reflect the effect of sub-division(spill) retrospectively.<sup>4</sup>

- The Parent Company has allotted 4, 83,278 and 7, 40,958 equity shares having face value of ₹2/- each for the quarter ended 30 September 2022 and year-to-date for the period from 01 April 2022 to 30 September 2022 respectively, under the Parent Company's Employees Stock Option Scheme 2006 (as amended) through Valibhav Global Employee Stock Option Weifare Trust at exercise price ranging from ₹2 ₹394 (also refer note 6).
- eeding 10% of total expenditure (included in other expenses administrative and selling expenses) 8

		(₹ in lacs, unle	ss otherwise stated
S72524 C	Quarte	r Ended	Half Year Ended
Particulars	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022
Content and Broadcasting expenses	10,490.85	8,037.76	19,888.17
Packing and distribution expenses	4 581 00	5 470 47	0 604 87

- 9 In earlier years, the Parent Company received notice from the Income Tax Department ("ITD") under Section 148 of the Act for Assessment Year 2012-13 to Assessment Year 2015-16. The Honorable High Court of Rajasthan had granted stay order on the Company's pellition for these Assessment Years mentioned above: Based upon the nature and external expert opinion obtained by the Parent Company, the management does not expect any liability to arise out of these proceedings.
- Partient Company, the Instagramm Obes in Keybeck any solution you to be out or mease proceedings.
  10 The Board of Directors of the Parent Company has declared interim (widend of ₹1,0)-per fully paid-up equity shares of ₹2/- each. The Company has fixed 05 November 2022 as the record date for payment of interim dividend of ₹1,0)-per fully paid-up equity shares of ₹2/- each. The divident 04 is 1,00/- an iterim (widend 05,0) per share (a, 57% on equity shares. The said interim dividend will be credited/displatched to the respective equity shareholders within 30 days of the declaration of dividend in addition to the above interim dividend view of 1,00/- an iterim (widend 04, 1,00/- an iterim (widend 04, 1,00/- an iterim (widend 04, 1,00/- per share), a,57% on equity share capital was declared and paid during the current period. Hence total dividend of ₹3/- has been declared during the current period.

period. Hence total dividend of 13<sup>-1</sup> has been declared during the current period. Jain earlier years. Shop LG Globalin LC, USA) (wholly owned stap-down subsidiary of the Parent Company) had availed a loan of USD 48.07 lace (equivalent to INR) 3.500.33 lace) at 1% interest under Paycheck Protection Program (PPP) of US Small Bouiness Administration (RSA) under CARES Art of USA. Under SBA quidelines, this loan was exhibited to certain conditions, pending which it was classified as borrowings as at 31 March 2021. During the period ended 30 Setember 2021. Spo.LG Global Inc. has received approval for vaiver of entire loan which was disclosed as exceptional item amounting to ₹ 3.289.87 lace, (net of expenses) (equivalent to USD 44.70 lacs). Waiver of accrued interest of ₹ 32.46 lace was netted of from finance cost. 31

b During the previous year, Group had done functional restructuring at its Parent Company, two subsidiaries (Shop LC Global Inc. and STS Global Supply Limited, (formerly STS Gens Limited)) and its step-down subsidiary STS (Guangzhou) Trading Limited, in its pursuit of bringing in more efficiency. This involved reduction in manpower and hence resulted in a one-time cost of ₹ 465.71 lacs and ₹ 330.84 lacs for they ear and quarter ended S1 March 2022 respectively.

12 During the current period, the Group has changed the name of following subsidiaries:

	Previous Name	New Name	Effective Date
	STS Gems Limited, Hong Kong STS Gems Thai Limited, Thailand STS Gems Limited, Japan	STS Global Supply Limited, Hong Kong STS Global Limited, Thailand STS Global Limited, Japan	07 June 2021 16 July 2021 03 June 2021
13	Company in November 2021. Subsequent as requested by the ITD or otherwise. The	conducted a Survey proceeding under section 133A of the by the Parent Company provided all cooperation and neces ITD issued further queries post the conclusion of surver and external expert opinion obtained by the Parent Company B	ssary data / documents/ information, y to which the replies have/are been
14	adequate degree of safety regarding time	- term bank facilities have been reaffirmed to CARE A by C ty servicing of financial obligations. The existing rating ings Limited as it is subsumed under long term facilities or	of CARE A1 for the short-term bank
15	The Company operates in single business	segment i.e. Fashion Jewellery and Life Style Products.	
16	Obligations & Disclosure Requirements)	uarterly Financial Results filed with stock exchanges und Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Finan	cial Results is available on the stock

- Site www.valbhavglobal.com. For and on behalf of the Board of Directors Sd/-Sunil An
  - Mar anaging Director DIN :00061142

### जयपुर। शनिवार | 29 अक्टूबर , 2022

# बिज़नेस रेमेडीज

भाव-बाजार । कमोडिटी । कार्पोरेट

## केयर्न ऑयल एंड गैस ने अपने राजस्थान ब्लॉक के लिये एक दशक के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (पीएससी) पर हस्ताक्षर किये

#### बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली

वेकांता लिमिटेड की एक यूनिट और भारत में तेल प्रयं कैस की खोज और अधादन करने वाली सबसे बड़ी निजी कांपनी के यन ऑयल एंड जैस को अगले दस वर्षों यांनी सर्ड 2030 तक के लिये पेटोलियम एव **गै**स URB ्रित्व (एमओपीएनजी) से अपने राजस्थान ब्लॉक के लिए प्रोडक इन शेयरि उ कॉन्ट्रैक्ट (पीएससी) को बढाने के लिए स्वीकति मिल गई है।

इस अनुबंध विस्तार के बारे में केवर्न प्रचर साह ने कहा, कि यह अगबंध दोगुन करने और ऊर्ज़ा के मामले में अरमनिर्भरता हासिल करने में भारत की मबद करने के हमारें लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण निर्धार क होगा। हमें विश्वास है कि यह अनुबंध हमें

ਜੋ, ਰਜ਼ੀ ਟੇਕਗੇਜੀਰੀਰ ਜੋ ਸਾਈ ਸਿਫੇਲ

और इस बेहद विश्वाल ब्लॉक में ब्लॉक के पास अभी लक 38 खोजों चाहिये, लाफि रि क वरी बढ सके | निवेश बढाने में समर्थ बनारमा। के साथ, 5.9 बिलियन बैरल तेल के . अंयल एंड जैस के डिप्टी सीईओ इस फील्ड में वए उत्खावन के लिये अरल के घरेलू करूड उत्पादन में बराबर (बीबीओई) का खडुवेकार्बन भी संभावना है। खासक र ऐसे 50 प्रतिश्वत योगदान देने के अपने है। इस ब्लॉक ने पिछले दशक में उरपावन क्षमताओं को अवरूरों के लिये. यह अनुबंध विस्तार लक्ष्य को लेकर हम बृद्ध हैं और संचयी आधार पर 700 मिलियन बहुत महत्वपूर्ण होगा। र ाजस्थान इसके लिये हम ५ बिलियन बैर ल्स तेल के 35 ब्लॉक में अपरेपरिक रूप से शेल अमेरि की डॉलर का निवेश कर गे(एमएमबीओई) उत्पादन किया है। एक्सरलोरेसन भी किया जाता है और और प्रतिदिव 500,000 बेरल के इस अनुबंध को बढ़ाने से पुंजीजत हमें विख्यास है कि यह अनुबंध हमें बराबर (500 के बीओईपीडी) तेल राज्य में निवेष बढ़ेगा और निजी राजस्थान ब्लोक में विश्वाल फील्ड्स अब परिचालन को कार गर बनने का उद्यादन हासिल करेंगे। इस कंपनियौं इस महत्वपूर्ण सेक्टर में

### पॉलीकैब इंडिया के नवीनतम एड कैम्पेन में पॉलीकैब ग्रीन वायर के उपयोग की वकालत फिलला। बेटी की सारासी बेखकर

#### बिज़नेस रेमेडीज/मुंबई

बिजली के सामान बनाने वाली देश की अग्रणी कंपनी पॉलीकेब इंडिय लिमिट`ड (पीआईएल) ने अपने नवीनतम दोलीविजन विज्ञपन के साथ देश में के बल और तारों से संबंधित परि दृश्य को पूरी तर ह बदलने के लिए कमर कस ली है। अपने नवीनतम एड के म्पेन में कंपनी ने पॉलीकेंब ग्रीन वायर के उपयोग की वकालत की है, ताकि



वैल्यू प्रीपोजीशन के बारे में अचानक पड़ने वाले लोड को जानकारी देने का एक अनुत्वस्रेलने और हमारे सपनों को प्रेसीडेंट और चीफ माके प्रयास है। इस अभियान के साथ सुरक्षित रखने में मवव करने के ऑफिसर भीलेश मलानी ने दिप्यणी कंपनी लोगों के दिल को छू लेने लिए बनाया गया है।

लोग अपने को पहले से अधिक वाली मानवीय क हानियों को तारों की अष्टमियत और उनके सुर किल अनुसार कर संक्रम्बर्शन कर ते हुए, उनके द्वारा फायवों का जिंक रते **ते सुभे**द्ध की एक उत्तला पहत सुर किल अनुसार कर तो सुरक्षित उपयोग किए जाने वाले तारों की फिरम एक युवा और महत्वाकांश्री र खत्ता है और इसे विखले कु तार के मायने हैं आंतरि कनुण्यता पर अंतिरिक्त व्यान देने बेडमिंट न खिलाड़ी के इर्ब-जिर्ब द्व्यों में व्यापक प्रशंसा मिली है। करते हुम्बहर की एक अलग पहर सुर क्रित सपने।' के अपेन इस के लिए पेरित करने का प्रयासधूमती है, जो अपने पिता को यह तार कि सी भी घर बताने की कोशिष्ठ करती है कि सप्ताई सिस्टम के लिए मेरू दं मायने में अलग है कि यह आज के कर रही है।

भारतम उत्तरात्र हरू यह उज्जाव के प्रान्थ हरते हैं। आधुविक उपनोक्ता को प्रोड्सन ये प्रैरेसी कल्फीयां हैं जो बर्शाती चुकि रात को रेस्टेडियम बंद ह ब्रेसिकिट एप्रोच से प्रायस्त और हैं कि के से के बल अशिरि कजाता है, लिखजा उसे लजातार चूंकि रात को स्टेडियम बंद हो का काम करते हैं, हात उपभोक्ता इस तर फ बहत क के बल की अहमिरात और इनके सुरक्षित पॉलीकेंब ग्रीन वायर को प्रेकिटर करने का मौका ही नहीं ध्यान देते हैं

# वैभव ग्लोबल लि. ने वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में वित्तीय परिणाम घोषित किए

१.५० रूपये का अंतरिम

लाभांश घोषित किया

कोविड पूर्व की समान अवधि से करीब 33 फीसबी की ग्रोथ

बिजनेस रे मेड ीज/जयपुर जयपुर आधारि त के शन ज्वैलरी, अपैर रुर ाइ ल प्रोड कर লোর ফে एसेसरीज की टीवी एवं डि जिट माध्यमी से वैश्विक स्तर पर बिक्र क र ने वाली कं पनी ने सितम्बर,2022 को तिमाही के वितीय परिणाम घोषिल किए हैं। कंपनी के विलीय परिणमों में खास

2023 की वूसरी तिमाही में 635 रुपये का राजस्व रहा है।

वर्ष २०२० की बूसरी तिमाडी के लेकिन इसमें धेरे-धेरे खुयार आ रहा फीसबी से अधिक रही है। 33 फीसबी की ग्रोथ बर्ज की गई। कं पनी की 3 वर्षों की वार्षिक कंपनी के रिटर्न रेष्ट्र्यो बेहतर होंगे।

चक्रवृति ग्रोध १० फीसदी रही है। - कंप्रजी के बीद से राजस्य में डिजिट ल एक शेयर पर 1.50 रुपये का अंतरिम राजस्व की हिस्सेक्सरी 36 फीसदी रही है। लामांश घोषिल कि या है । विल वर्ष एलईईडी गोल्ड सर्टिफिकेशन हासिल मॉडल मजबूत है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड सप्लई चेन एवं २०२३ के लिए कं पनी का कुलकिया है। विश्तृत प्रकार के उत्पाबों के चलते अंतरिम लामांश उरुपये प्रति शेयर हो कं पनी का ऑस मर्जिन इंड स्टी मेंगय है।

सर्वाधिक ६० फीसबी से अधिक बर्ज रितया गया है।

11.5 फीसबी के मुकाबले 8.1 फीसबी फीसबी और सितम्बर-20 के मुकाबले १२ फीसदी अधिक है। रहा है। - उ क्त तिमाही में कं पनी का कर-नये रजिस्ट्रैंडन टीटीएम बेसिस पर पश्चात शुद्ध लाम जत वर्ष की तिमाही 3.2 लाख न्ये र जिस्ट्रे शन दर्ज किए में अर्जित 42 करोड़ रूपये के मुकाबले गए, जोकि वर्ष दर वर्ष के हिसाब से 5

23 करोड़ रुपये रहा है। फीसदी अधिक और दिल वर्ष 2021 के टीटीएम आवार पर कंपनी बमुक्कार्थ 25 फीसदी अधिक रहा है। आर ओसीई 18 फीसवी और आर ओई - डिजिटल पर फोकस कंपनी ने उक्त

....



#### सुनील अग्रवाल, अपनी वेबसाइ ट पर

इंटरेक्टिव शॉपिंग शुरू कर वी है। करोड़ रूपये के मुकाबले 646 करोड़ 13 फीसदी दर्ज किया मया है। कम - श्रॅप टीजेसी (यूके): फी व्यू चैवल लाभदायक ता के चलते कं पती के अपबेडेशन को स्पॉट 22 पर करने का - उक्त अवधि में कोविड पूर्व यानि वित्त रिटर्न रेस्पों में कमजोरी दिख रही है. प्रभाय-नये टीवी बाह को की बर 49 रु झानों की निमर जी कर ना

भाव 2020 की दूसरा ने मिलान के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रति प्रविद्य के स्थित के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिक मुरावले के प्रती के राज़ब में शबाबार है । इस आयार के प्रती प्रविद्य के रेशिंप प्रतसी त्यूरसांग्रे यूरस में केपनी टीम कि सी भी वालवर पर में इस उंध कीरती की प्रोध बर्ज की गई। उम्मीद है कि आने ताशी सिमहियों में ने ओटीए एवं केबल प्लेटफॉर्म में 10 व्यवसाय को प्रमार्थ का से प्रविद्य त्रेत आधरित। को जोरा है।

- कंपनी ने २ रूपये फेसवेल्यू के प्रति

### कंपनी के हालिया डवलपमेंदर

- कंपनी के टीटीएम बेरिस पर यूनिक

बंद हुआ अग्रायाल, प्रबंध निवेशक,वैभव उत . बल र ाजस्व वृद्धि दर्ज की है अर्थव्यवस्थाओं में मौजूबा उभ्च करने की उम्मीब रखते हैं। "

रकीति के सहौरन की पृष्ठभूमि में जो आशाजनक है । जब तिमाही कमजोर दिखती है, हमारी 3 साल की वदिव वार्षिक वदिव 10 फीर अधिक है और बिल वर्ष 2020 व वूसरी तिमाही के मुकब्बले ३३ फीसबी अधिक है।

शेयर बीएसई पर 4.09 फीसबी

बढ़कर ३५६.३५ रूपये पर बंद हुआ

पिता पॉलीकै ब जीन क्यर र

उपयोग कर के अपने घर

पिछवाड़े में स्टेडियम रौयार क

देते हैं। अपनी कोशिशों से वह बेटी

को प्रसन्न करता है जो चैंप्रिय

को कि पॉलीकै ब इंडिया वाय

और के बल सेगमेंट में मावे

पॉलीकैब इंडिया शिभरेड के

बनने का रापना देख रही है।

हमारे मर्जिन पहली शिमही में निचले २तर घर थे घर अब इ तमें क बि लाइ व रख्रांधार वर्ज मुरू कर दिया है और इमें बूसरी छमाही में सुधार जारी रहने की उम्मीद है।

हम पर्यावर ज और खावसारिक रखेंने और मानले हैं कि हमारी मौजूवा

मिलियन हाउरा होल्ड्रा (८ मिलियन करने का अनुभव रखती है। यक ीन है कि दीर्घक लिक कं प्रजी ने 2 भवनों के लिए मजबूत बनी हुई है और हमारा व्यापार

वर्तमान व्यापक अर्थिक चुनौतियों शुक्तवार के कारोबारी सत्र में शुरुआत के बीच, हमने एक स्पष्ट क्रमिय बुध्यार के खराब प्रत्या के अरह सुयार देखा है। पिछले कुछ महीनें के बी अन्ने कि शेयर पर विखना शुरू हो के दौरान राजस्व प्रतृतियों में महीने-मया था के पनी का श्रेयर कारोबारीहर-महीने सुधार हुआ है और ह - विश वर्ष 2023 की पहली तिमाही के करटमर्स 4,99,401 वर्ज किए जए हैं सत्र के उला में बीपसई पर 4.09 विश्वास है कि यह क्षणिक चर मुकाबले के पत्नी का ई बिरा मजिंको प्रेर सिरम्बर 21 के मुकाबले 5 फीसदी बढ़ कर 356.35 रुपये परजल्द ही हमारे साथ होगा। वर्तमान

अर्थिक परिवेश को ध्यान में रखर वित वर्ष 2013 की वूसरी तिमाही के हुए, हम उम्मीद करते हैं इस वित प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए सुनील वर्ष में 8-9 फीसवी के ई हि मार्जिन के साथ 2-4 फीसदी क लिमिटेड ने कहा, '' पिछली तिमाही के टॉपलाइन ग्रोध दर्ज करें गे। हमार बौरान, हमने कम एकल अंकों की मध्यावधि दक्षिकोण बरकरार है और पश्चिमी हम बाद के वर्षों में उक्की गोथ दर्ज

आने के लिये प्रोत्सहित होगी। पलड प्रोजेक्ट और दनिया का सबसे कई पहले हुई है। यह देश में पहला यह फील्ड मंगला पड़पलइन का। फील्ड है, जिसने माइको सेरिमक हाइड्रोफ़ै क मॉनिट रि'म ट'क नोलॉजीर्म और इंसुलेटेड रहने वाली विख अपनाई है और बनिया का सबसे बडा की सबसे लंबी पाइपलाइन है और जेट-प्रस्य ऑपरेखन भी किया है। यहाँ दनिया का सबसे बडा एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी (इंओआर) पॉलीमर पहेंचाती है।



#### त्यूज ब्रीफ सोना 105 रुपये दूटा, चांदी में 21 रुपये की तेजी बिजनेस रे मेडीज/नई बिल्लीवेशिक बाजारों में कमजोरी के रूख के

5

कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना १०५ रुपये की शिखवट के साथ 50,889 रू पये प्रति 10 ग्राम र इ गया। एचडीएफ र्स अन्य फालय आत्वाहत हुआ।। यत्वाइ आजवद आर कुमवा का सबस र जिस्थाह कॉक का बड़ा र स्ट्रीय बडा पत्क लाइन सर फे व क्रिक्स्ट्रेरिटीज ने यह जानकारी दी। इसने पिछले कारोबारी सत्र में सोना महत्त्व है और यहाँ टेचन्नेलॉजी की 'पॉलीमर (पर्रस्व) प्रोजेक्ट भी है। 50,994 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ वा। हस्नकि राष्ट्रीय राज्यानी में चांबी की कीमत 21 रुपये की तोनी के साथ 58,336 रुपये आर मन्ध्रिन्दु भी है, जोकि लगातार प्रति किलोग्राम हो गई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विभिमय बाजार में शुक्रवार के आरंभिक कारोबार के बौरान डॉलर के मुकाबले रुपये में चार पैसे की तेजी रही। इसका कारण विदेशों में डॉलर का कमजोर होना और घरेलू म्पा लबत लबा पाइपलाइन ह आर. भाग रशा श्रेलक कारण कारण प्रायस्था म डालर का कमजार होना और घर बरुड को राजस्थान के फील्ड्स से। खेटर बाजर में लेजी का होना था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना नुकसान के वरुड द्वा राजस्थान क फाल्ड्स से जुजरात को दि फाइनर जि<sub>र</sub> स्टिया 1.653.25 डॉलर प्रति और रह ज्या जबकि चांदी 19.34 डॉलर प्रति पहिंचती है। । और पर लजमज उपरिवर्तित रहा।

#### estor relation s@vaibhavglobal.com; Webs www.vaibhavolobal.com ted Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30" September, 2022 Extract of Concolli Consolidated Quarter Ended Year to date end 30.09.2022 (Unaudited) Particulars 30.09.2022 (Unaudited) 30.09.2021 (Unaudited) otal Income from Operations (Net) 64,625.72 63.478.54 127,452.84 ther Income 220.43 64,846.15 592.20 405.06 127,857.90 Total Incom 64,070.74 let Profit from Or 3,116.59 5,829.82 5,616.58 Net Profit from Ordinary Activities before tax (after exceptional items) Net Profit from Ordinary Activities after tax (after exceptional items) 3,116.59 2,303.75 5,616.58 4,261.80 5,829.82 Fotal Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) 2,171,91 5,482.45 3,290.81 3,450.37 3,267.85 Equity Share Capital arnings Per Share (of ₹ 2 each) (for continuing and disco i) Basic EPS ii) Diluted EPS

Regd. Off. : K-68, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaspur-302004; Tel:-91-141-2601020; Fax: 91-141-2605077; CIN : L36911RJ1989PLC0D4945;

(V) Vaibhav Global Limited

The above unsudited consolidated financial results for the quarter ended 30 September 2022 and year-to-date for the period fr 01 April 2022 to 30 September 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in th respective meetings held on 27 October 2022. The financial results for the quarter ended 30 September 2022 and year-to-date for period from 01 April 2022 to 30 September 2022 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

These unautilited consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Usefaluer Requirements) Regulations 2015.

Current tax includes minimum afternate tax (NAT), wherever applicable, and deferred tax includes MAT credit ent Key numbers of standaione financial results of the Parent Company, i.e., Vaibhav Global Limited are as under:

Particulars		Quarte	Quarter Ended	
		30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	
ŋ	tal Income ofit before tax tal Comprehensive income	12,926.10 3,772,27 3,723.00	16,235,99 4,825,66 4,450,58	24,057,24 4,557,07 4,277,47
1	The unaudited consolidated financial results include the financial subsidiaries and step-down subsidiaries (collectively referred a A. VGL Retail Ventures Limited, UK a. Shop TJC Limited, UK i. Shop LG Biobal Inc. USA		I the financial re	sults of the following

av Vistar Limited, 1

G. Vaibhav Lifestyle Limited, India

H. Shop LC GMBH, Germany

Encase Packaging Private Limited, India (acquired on 15 March 2022)

rd date for sub-

I. Encase Packaging Private Limitet. India (acquirind on 15 March 2022). The shareholders of the Partier Company through postal halidic resolution dated 24 April 2023 approved the share of the Partier Company from face value of ₹ 10- each into five equity shares of ₹ 2/- each. The recor-10 May 2021. Alfabers and per share information in the financial results reliance the fact water to the Unit 10 May 2021. Alfabers and per share information in the financial results reliance the fact water Sub-division (alfaber 2022 and year-to-date for the period from 01 April 2022 to 30 September 2022 respectively, under the Parties Solid April 2014 (alfabers) and period from 01 April 2022 to 30 September 2022 respectively, under the Parties Solid April 2014 (alfabers). Alfaber 2014 (alfaber 2014) and the Parties flow (alf The Parent Company has allotted 4. 2022 and year-to-date for the period Stock Option Scheme - 2006 (as an 7.2 - 7.394 (also refer note 6). Item exceeding 10% of total expendition -each for the quarter ended 30 Se

(₹ in tacs, unle			ss otherwise states	
A2004010001	Quarter Ended		Half Year Ended 30.09.2022	
Particulars	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022	
intent and Broadcasting expenses icking and distribution expenses	10.490.85 4,581.90	8,037.76 5,470.47	19,888.17 9,604.87	

- In earlier years, the Parent Company received notice from the Income Tax Department ("TID") under Section 148 of the Act fo Assessment Year 2012-13 to Assessment Year 2015-16. The Honorable High Court of Rajasthan had granted stay order on the Company's petition for these Assessment Years memorand above. Based you the nature and external expert opinion obtained by the Parent Company, the management does not expect any liability to arise out of these proceedings.
- Parent Company, the management does not expect any liability to arise out of these proceedings. To The Board of Directions of the Parent Company has declared intertim widered of 15,00° per fully paid. The source interm divident of the Company has fued to Rovember 2022 as the record date for asymet of interion divident of 15,00° per fully paid. The source interm divident of the Company has fued to Rovember 2022 as the record date for asymet of interion divident of 15,00° per fully paid. The source interim divident of 15,00° per share last the record date for asymet of interion divident of 15,00° per share between the record date for asymet of interion divident of 15,00° per share last the record date for asymet of last of the doctardation of divident in addition to the above interim divident of 1, 50° per share last. 25% or equity share capital was declared and paid during the current period. If a herein query are, Shop LC Stolout Inc. (USA) (whelly evened stee-down subsidiary of the doctard of 1, 50° per share last. 25% or equity share capital was declared and paid during the current period. If a herein (SAB) under CARES Act of USA) (whelly evened stee-down subsidiary of the Parent Company) had availed a loan of USD 48,00° lasts (generation (SAB) under CARES Act of USA). Under SAB quedles, this loan was excluded as eligible for waves subject to certain conditions, pending which it was classified as exceptional items amounting to 4, 238,37 lass (Load Inc. Inc. SAB) was as a 31 March 2021. During the period ended 30 September 2021. Shop LC Global Inc. The same severed approads for waves or entime target exceptional items and the moves the period and ended 30 September 2021. Shop LC Global Inc. The same shop approads for waves or entime target exceptional items and the period ended 30 September 2021. Shop LC Global Inc. The same shop approads for waves or entime target waves and the period ended 30 September 2021. Shop LC Global Inc. The same shop approads for waves or entime target waves and therein as the same

Implement to USU 44-7 March Printer to account interface of the analysis of the analysis and the account on manuface costs. B) During the previous yeas, Group and done functional restricturing all the Prient Company. It was high distributions (Shop LC Global Inc. and STS Blobal Supply Limited, (formarry STS Geme Limited); and it setse -down subtidiary STS (Guarghhou) Trading Limited, in its pursuit of bringing in more efficiency. This involved reduction in manpower and hence resulted in a one-time cost of ₹ 465.71 lacs and ₹ 300.84 lacs for the year and quarter ended 31 March 2022 respectively.

ing the succent period, the Group has changed the name of foli 12 Du

Prévious Name	New Name	Effective Date
STS Gerns Limited, Hong Kong	STS Global Supply Limited, Hong Kong	07 June 2021
STS Gems Thai Limited, Thailand	STS Global Limited, Thailand	16 July 2021
STS Gems Limited, Japan	STS Global Limited, Japan	03 June 2021

- 13 The Income Tax Department ("the ITID") conducted a Survey proceeding under section 133A of the Art at the premises of the Parent Company in November 2021. Subsequently, the Parent Company provided all cooperation and necessary data / documents/ information as requested by the ITO or otherwise. The ITD saved further queries uses the conclusion of survey to which the replies have been titled. As on date, based upon the mature and extern useries to maintained by the Parent Company. The Markate been titled. As on date, based upon the mature and external useries down on the management does not ever any lability to arise out of these proceedings.
  14 The existing rating of CARE A for the long-term bank facilities have been reaffirmed to CARE A by CARE Ratings Limited which denote adequate degree of safety regarding Limited such as dusbumied under tong term tacilities only.
  15 The Company concretes in which indices semicer to each output event and the full event of the short-term bank tacilities have been indices and the study are concreted on the indices semicer and the subsummed under tong term fullities only.
- 15 The Company operates in single business segment i.e. Fashion Jewellery and Life Style Products. The tree company generation many summary approximation to an end of the second and the second approximation of the company's version approximation of the second approximation of the company's version of the second approximation of the company's version of the company's versi ulation 33 of the SEBI (Listin
  - For and on behalf of the Board of Dire Sunil Agra

Managing D

Place : Jaipur Date : 27 October 2022

....

Name and a	Quarte	Quarter Ended	
Particulars	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2822
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total income	12,926.10	16,235,99	24,057,24
Profit before tax	3,772,27	4,825,66	4,557,07
Total Comprehensive income	3,723.00	4,450,58	4,277,47
<ol> <li>The unaudited consolidated financial results include the financial resubsidiaries and step-down subsidiaries (calidicative) (cal</li></ol>	Group')	I the financial re	suits of the following